



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 03.11.2020

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा 08 शातिर लूटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 लूट के मोबाइल व 02 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस, 02 अवैध चाकू व 03 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 02.11.2020 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा 08 शातिर लूटेरे अभियुक्तों को खैरपुर गोल चक्कर थाना बिसरख क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 18 मोबाइल, 02 तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 अवैध चाकू बरामद किये गये है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के लुटेरे/चोर है। अभियुक्तगण थाना क्षेत्र बिसरख की सोसायटीयो में व सोसायटीओ के बाहर हाउस कीपिंग का कार्य करते है तथा एक दूसरे से सम्पर्क कर मोबाइल छीनते है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. अर्जुन पुत्र सन्तोष निवासी डालचन्द मौहल्ला थाना कोतवाली जिला पीलीभीत वर्तमान निवासी तालाब के पास फौजी का मकान गांव बिसरख थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
2. दीपक पुत्र शौराजनाथ निवासी गांव बिसरख थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
3. अजय पुत्र सन्तराम निवासी- सरफपुर थाना दनकौर गौतमबुद्ध नगर
4. राजा पुत्र अमर सिंह निवासी- वाल्मीकी मौहल्ला कासगंज थाना बिलग्राम जिला कासगंज वर्तमान निवासी भीमा मोड गांव बिसरख थाना बिसरख गौतमबुद्ध नगर
5. अभिषेक पुत्र दिकेश निवासी- डालचन्द मौहल्ला थाना कोतवाली जिला पीलीभीत वर्तमान निवासी प्रिंस का मकान जीओ के टावर के पास गांव बिसरख थाना बिसरख गौतमबुद्ध नगर
6. अजय पुत्र चुन्नी लाल निवासी- तालाब के पास गांव व थाना बिसरख गौतमबुद्ध नगर

7. नीरेश पुत्र राजेन्द्र निवासी गांव धमरपुरा थाना बबराला जिला सम्भल वर्तमान निवासी मकान नम्बर ए/106 सैक्टर 02 पतवाडी थाना बिसरख गौतमबुद्ध नगर

8. बादल पुत्र धारा निवासी गाँव व थाना बिसरख गौतमबुद्ध नगर

### **आपराधिक इतिहास का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 687/2020 धारा 392,411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0 688/2020 धारा 392,411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
3. मु0अ0सं0 689/2020 धारा 413,414 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
4. मु0अ0सं0 690/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
5. मु0अ0सं0 691/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
6. मु0अ0सं0 692/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।
7. मु0अ0सं0 693/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर ।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 18 मोबाइल लूट के
2. 02 तमंचे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
3. 02 अवैध चाकू
4. 03 मोटर साइकिल



## **2-थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 02.11.2020 को थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त अमन सैफी पुत्र तस्लीम निवासी बिछुरिया थाना भमोरा जिला बरेली वर्तमान निवासी हुकुम चंद शर्मा का मकान ग्राम निठारी को सरदार भगत सिंह पार्क सेक्टर 31 निठारी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर 20 पर दिनांक 02.11.2020 को पंजीकृत मु0अ0स0 1004/20 धारा 354,354घ भादवि0 व 9/10 पोक्सो अधि0 में वांछित था।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. अमन सैफी पुत्र तस्लीम निवासी बिछुरिया थाना भमोरा जिला बरेली वर्तमान निवासी हुकुम चंद शर्मा का मकान ग्राम निठारी

### **अभियोग का विवरण-**

1.मु0अ0सं0 1004/2020 धारा 354,354घ भादवि0 व 9/10 पोक्सो अधि0 थाना सेक्टर 20

## **3-थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार आरी बरामद।**

दिनांक 02.11.2020 को थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त आतिफ पुत्र भूरे खाँ वर्तमान निवासी श्री केशराम तंवर का मकान ग्राम बरौला थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार आरी बरामद की गयी है।

### **घटना का विवरण-**

दिनांक 21.10.2020 को बिजली विभाग के संविदा कर्मी श्री आवेश कुमार ने थाना सेक्टर 49 नोएडा पर सूचना दर्ज करायी कि दिनांक 20.10.2020 की रात उसके पडोसी ने धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर 49 नोएडा पर मु0अ0सं0 869/20 धारा 324 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

(1) आतिफ पुत्र भूरे खाँ वर्तमान श्री केशराम तंवर का मकान ग्राम बरौला थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर

## **अभियोग का विवरण-**

1. मु0अ0सं0 869/20 धारा 324 भादवि0 थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर

## **बरामदगी का विवरण-**

घटना में प्रयुक्त आरी बरामद

## **4-थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 03.11.2020 को थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा सम्बन्धित मु0अ0सं0 97/2020 धारा 363/366 भादवि में चल रहे वांछित अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र रामवीर निवासी नई बस्ती दनकौर निकट बाल्मिकी मौहल्ला थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

## **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

अंकित कुमार पुत्र रामवीर निवासी नई बस्ती दनकौर निकट बाल्मिकी मौहल्ला थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

## **अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 97/2020 धारा 363/366 भादवि0 थाना इकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर

## **5- थाना फेस 2 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।**

दिनांक 03.11.2020 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त बहादुर पुत्र सुन्दरपाल निवासी ग्राम दबरा थाना करैरा जिला सीगरी मध्य प्रदेश को नंगला चरनदास कट थाना क्षेत्र फेस 2 से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना फेस 2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 455/2017 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम में वांछित चल रहा था।

## **अभियुक्त का विवरण-**

बहादुर पुत्र सुन्दरपाल निवासी ग्राम दबरा थाना करैरा जिला सीगरी मध्य प्रदेश

## **अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 455/2017 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम थाना फेस2 गौतमबुद्धनगर

## प्रेस विज्ञप्ति

### **बालिकाओं की बरामदगी मे थाना दादरी पुलिस की कटिबद्धता से मिली बडी सफलता**

1. मु0अ0सं0 34/2020 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित पीडिता को दादरी पुलिस के अथक प्रयास द्वारा दिनांक 7.9.2020 को 02 घण्टे में पीडिता को मौहल्ला हबीबपुर सूरजपुर से बरामद किया गया ।
2. दिनांक 29.10.2020 को अशोक राघव ने थाने पर आकर सूचना दी कि मेरी पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष घर से चली गयी है । जिसे गम्भीरता से लेते हुए लोकेशन मंगाकर दादरी पुलिस द्वारा 1 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद किया गया । परिजनो के अनुरोध पर अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया तथा बालिका को उसके परिवारजन के सुपुर्द किया गया ।
3. दिनांक 18.8.2019 को मु0अ0सं0 897/19 धारा 363/366 भादवि में 02 पीडिता लापता हो गयी थी जिन्हे थाना दादरी पुलिस के अथक प्रयास द्वारा सकुशल दिनांक 13.10.2020 को बरामद किया गया । जिन्हे नियमानुसार परिवारजनो के सुपुर्द किया गया ।
4. दिनांक 28.11.2019 को मु0अ0सं0 1315/19 धारा 363/506 भादवि से सम्बन्धित पीडिता को दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 29.9.2020 को बरामद किया गया । जिन्हे नियमानुसार परिवारजन के सुपुर्द किया गया ।
5. दिनांक 26.10.2020 को मु0अ0सं0 724/2020 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित पीडिता को दिनांक 31.10.2020 को दादरी पुलिस के अथक प्रयास द्वारा बरामद किया गया । जिसे नियमानुसार परिवारजनो के सुपुर्द किया गया ।
6. दिनांक 20.8.2020 को मु0अ0सं0 554/2020 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित गुमशुदा पीडिता को दादरी पुलिस के अथक प्रयास द्वारा आपरेशन मुस्कान के चलते दिनांक 03.11.2020 को बरामद किया गया । जिसे सकुशल परिवारजनो के सुपुर्द किया गया ।

## प्रेस विज्ञप्ति

### **थाना दादरी पुलिस द्वारा पिछले ढाई महीने से गुमशुदा बालक को किया सकुशल बरामद ।**

दिनांक 03.11.2020 को दादरी पुलिस ने अथक प्रयासों के पश्चात अनस पुत्र जमालुद्दीन निवासी मौहल्ला मेवातियान नई आबादी दादरी गौतमबुद्धनगर को दिल्ली जामा मस्जिद से सकुशल बरामद किया है, अनस उपरोक्त दिनांक 20.08.2020 को घर से बिना बताए कहीं चला गया था जिसके संबंध में थाना दादरी पर मु.अ. सं. 554/2020 धारा 363 भादवि पंजीकृत है परिजनों ने अपने बच्चे से मिलकर दादरी पुलिस का आभार प्रकट कर भूरि- भूरि प्रशंशा की है।